



GLOBAL SURFACES LTD.

(Formerly known as "Global Stones Private Limited")

ISO 9001:2015 ISO 14001:2004 Certified Company

CIN : L14100RJ1991PLC073860

Ref: GSL/SEC/2024-25/37

Date: August 28, 2024

To,
BSE Limited,
Dept of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001 (Maharashtra)

National Stock Exchange of India Limited
The Listing Department
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400 051 (Maharashtra)

Scrip Code: 543829

Symbol: GLSU

Subject Submission of Newspaper clippings

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper clippings of advertisement published in all editions of Financial express (English) and Business Remedies (Hindi) on Wednesday, August 28, 2024, regarding Dispatch of Notice of 33rd Annual General Meeting of the Company alongwith Annual Report for the Financial Year 2023-2024 to the shareholders.

Thanking You

Yours Faithfully,

For **Global Surfaces Limited**

Dharam Singh Rathore
Company Secretary and Compliance Officer
ICSI Mem. No.: A57411
Place: Jaipur

Encl: As above.



Registered Office & Quartz Division: Plot No. : PA-010-006, SEZ
Engineering & Related Industries, Mahindra World City,
Teh. Sanganer, Jaipur 302037 (Rajasthan), Ph. 0141-7191000

Natural Stone Division: Plot No. : E40-42, G43-47
RIICO Industrial Area, Bagru Ext., Jaipur 303007,
Rajasthan (India) Ph. 0141-2865186/87, +91 99822 49800



info@globalsurfaces.in



www.globalsurfaces.in



UTTAM SUGAR

Uttam Sugar Mills Limited
 [Corporate Identity Number (CIN): L99999UR1993PLC032518]
 Regd. Office: Village Libherheri, Tehsil Roorkee, District Haridwar, Uttarakhand - 247667
 Tel.: 0120 - 4525000, Website: www.uttamsugar.in, E-mail id: investorrelation@uttamsugar.in

NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

AGM

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on **Wednesday, 18th September, 2024 at 12:00 noon** through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VOAVM") to transact the business(es) as set out in the Notice of AGM. The Company's 29th Annual Report along with notice convening the AGM, have already been sent through electronic mode on 27th August, 2024 to all the members whose email ids are registered with the Company and/or Depository Participants in accordance with the circular issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India. The Notice of the 29th AGM and Annual Report is also available on the website of the Company at www.uttamsugar.in, at the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and National Securities Depository Limited i.e. www.evoting.nsdl.com

E-VOTING

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended upto date and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to Members the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system (remote e-voting as well as e-voting on the day of AGM) provided by NIVIS CORP/SEVLP through National Securities Depository Limited. Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e. **Wednesday, 11th September, 2024** shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

OTHER DETAILS FOR AGM AND E-VOTING

- The remote e-voting period will commence on **Sunday, 15th September, 2024 (9.00 a.m.) and ends on Tuesday, 17th September, 2024 (5.00 p.m.)**. During this period, the Members may cast their votes electronically. Voting through remote e-voting will not be permitted beyond 5.00 p.m. on **Tuesday, 17th September, 2024**. The remote e-voting module shall be disabled by National Securities Depository Limited for voting thereafter.
- In case a person has become a member of the Company after dispatch of AGM Notice but on or before the cut-off date for remote e-voting and e-voting at the AGM i.e. **Wednesday, 11th September, 2024**, he/she may obtain the User ID and Password for joining the AGM and e-voting in the manner as provided in the notice of the 29th AGM.
- A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Those members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

BOOK CLOSURE

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books shall be closed from **Thursday, 12th September, 2024 to Wednesday, 18th September, 2024 (both days inclusive)** for the purpose of 29th AGM and for determining the entitlement of the shareholders to the Dividend for the financial year 2023-24.

DIVIDEND

(a) The cut-off date for the purpose of determining the entitlement of shareholders for the final dividend for financial year 2023-24 is **Wednesday, 11th September, 2024**. The payment of dividend shall be made within 30 days of the AGM subject to member's approval at the 29th AGM.

(b) The Dividend, if declared, will be paid through Reserve Bank approved electronic mode to those Shareholders who have updated their bank account details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participants. For Shareholders who have not updated their Bank account details, Dividend Warrants/Demand Drafts will be sent to their registered addresses.

(c) The manner in which the members may update their Bank Account details for receiving dividend is detailed in the Notice of the AGM.

Shareholders who need technical assistance before or during the AGM:

May refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com Call on toll free no. 1800-1020-990 and 1800-224-3030 or send a request at evoting@nsdl.co.in Contact Ms. Richa Rastogi, Nivis Corporate LLP, contact No. 011-45201005, email id: info@nvcv.com or Mr. Rajesh Gang, Company Secretary & Compliance Officer, A-2E, IIIrd Floor, CMA Tower, Sector-24, Noida (U.P.), phone no. 0120-4525000 or e-mail: investorrelation@uttamsugar.in.

By Order of the Board of Directors of the Company
 For Uttam Sugar Mills Limited
 Sd/-
 (RAJESH GARG)
 Company Secretary & Compliance Officer
 (Membership No. FCS-5841)

Date: 28th August, 2024
 Place: Noida

ADVERTISEMENT OF NOTICE OF RECORD DATE FOR CONSOLIDATION OF EQUITY SHARE CAPITAL OF ASSOCIATED MARMO AND GRANITES LIMITED

A petition under Section 61(1)(b) of the Companies Act, 2013, for Consolidation of Shares was presented by Associated Marmo and Granites Limited, in August 2021, and the said petition was approved by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Jaipur bench vide its order dated May 22, 2024 (certified copy received on May 28). The Board of Directors of the Company has at its meeting held on 5th, August, 2024, has determined 5th September, 2024, which is the Record Date, fixed for the purpose of consolidation of equity shares of the Company from Rs. 10/- each into Rs. 12, 10,000/- each. The above information is also available on the website of the Company (www.amgl.in).

For Associated Marmo and Granites Limited

Date: 27th August, 2024 Nishant Bagla
 Place: Pasoond, Rajsamand Managing Director

Registered Office: N H 8, Pasoond, Rajsamand - 313326
 Email: nbagla1@hotmail.com Website: www.amgl.in
 CIN: U14101RJ1980PLC001989

rba
 restaurant brands asia

RESTAURANT BRANDS ASIA LIMITED
 (Formerly known as Burger King India Limited)

CIN: L55204MH2013FLC249966

Registered Office: Unit Nos. 1003 to 1007, 10th Floor, Mittal Commercial, Asan Pada Road, Chinhatpada, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400 059
 Website: www.burgerking.in | Tel No.: +91 22 7193 3000
 E-mail: investor@burgerking.in

NOTICE OF 11th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Eleventh (11th) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Restaurant Brands Asia Limited (the "Company") will be held on **Thursday, September 19, 2024 at 3:00 p.m.** (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

The AGM will be convened through VC/OAVM in accordance with the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with the General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 (in continuation with the Circulars issued earlier in this regard) by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") (collectively referred as the "Circulars").

1. Dispatch of Annual Report and Dissemination on the Website:

In compliance with the provisions of the Circulars, the Notice of the AGM along with the Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 and Annual Report 2023-24 has been sent to the shareholders/ members of the Company on Tuesday, August 27, 2024, through electronic means whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA")/ Depository Participants ("DPs") as on Friday, August 23, 2024.

Also, an electronic copy of the Annual Report 2023-24 of the Company, inter alia, containing the Notice of the AGM is available on the websites of:

- the Company at www.burgerking.in;
- the Stock Exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com; and
- the Registrar and Share Transfer Agent viz. Link Intime India Private Limited ("LIPL") at <https://instavote.linkintime.co.in>.

2. E-Voting:

In accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard - 2 on General Meetings, issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer the e-Voting facility before the AGM through remote e-Voting and e-Voting during the AGM to its shareholders/ members in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed LIPL for facilitating voting through electronic means. The details of e-Voting are given herein below:

- A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners of the Company, as on the cut-off date i.e. **Thursday, September 12, 2024**, only shall be entitled to avail the facility of e-Voting, either through remote e-Voting or e-Voting during the AGM.
- Remote e-Voting:**
 The remote e-Voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of e-Voting	Sunday, September 15, 2024 from 9.00 a.m. IST to 5.00 p.m. IST
End of e-Voting	Wednesday, September 18, 2024 up to 5.00 p.m. IST

 The remote e-Voting module will be disabled by LIPL for voting thereafter. Voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. **Thursday, September 12, 2024**.

Members who have cast their vote through remote e-Voting will be eligible to participate in the AGM and their presence shall be counted for the purpose of quorum, however such members shall not be allowed to cast their vote again at the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the notice and holds shares as of the cut-off date i.e. **Thursday, September 12, 2024** may follow the procedure for remote e-Voting as enumerated in the Notice of the 11th AGM or a requisition e-mail may be sent on enotices@linkintime.co.in for obtaining the login credentials.

E-Voting at the AGM:

The Company has opted to provide e-Voting during the AGM which is integrated with the VC/OAVM platform and no separate login is required for the same. The e-Voting window shall be activated upon the instructions of the Chairman of the Meeting during the AGM and only those members/ shareholders attending the AGM and who have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.

3. Manner of registration of e-mail address:

Members who have not registered their e-mail address with the Company are requested to follow the below process to register their e-mail address:

Demat Shareholders	The shareholders are requested to register their e-mail address, in respect of demat holdings with the respective DP by following the procedure prescribed by the DP.
Physical Shareholders	Write an e-mail with request letter mentioning name, folio number, scan copy of self-attested PAN, scan copy of cancelled cheque leaf bearing name of the Member and scan copy of physical share certificate to LIPL at ml.helpdesk@linkintime.co.in .
Web-portal Temporary Registration (Demat and Physical Shareholders)	Click on link: https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html to register your e-mail address.

4. Contact Details:

E-Voting	In case shareholders/ members have any queries related to e-Voting facility/ login, they may refer the frequently asked questions and e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in/ under Help Section or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President - E-voting, LIPL, C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, at telephone no. 022-4918 6000 or write an email to enotices@linkintime.co.in .
AGM through VC/OAVM	In case shareholders/ members have any queries regarding login, they may send an email to instameet@linkintime.co.in or investor@burgerking.in in contact on: - Tel: +91 22 49186000.

For Restaurant Brands Asia Limited
 (Formerly known as Burger King India Limited)
 Sd/-
 Shweta Mayekar
 Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
 Date: August 27, 2024

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

For Lumax Auto Technologies Limited
 Pankaj Mahendru
 Company Secretary & Compliance Officer
 M. No.: A28161

Place: Gurugram
 Date: August 27, 2024

MMTC LIMITED
 Core - 1, Scope Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110 003

Phone No: 24362200; 2436189, Email: mmtc@mmtclimited.com, akmisra@mmtclimited.com
 Website: www.mmtclimited.com, CIN: L51909DL1963GOI004033

INFORMATION ABOUT CONVENING OF 61st ANNUAL GENERAL MEETING OF MMTC LIMITED

Pursuant to Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, and SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), it has been decided to convene the 61st Annual General Meeting (AGM) of the Company on Friday, 27 September, 2024, at 11.30 A.M through VC / OAVM facility, without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the 61st AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended on March 31, 2024, along with login details for joining the 61st AGM through VC / OAVM facility including e-voting will be sent only by e-mail to all those Members, whose e-mail addresses are already registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP"). Members can join and participate in the 61st AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice. Members participating through VC / OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 61st AGM and the Annual Report will also be made available on Company's website (www.mmtclimited.com), Stock Exchanges' websites (www.bseindia.com) and www.nseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (www.evotingindia.com).

The Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its members enabling them to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of the 61st AGM. Detailed instructions for remote e-voting will be provided in the said Notice.

Members who have not registered their e-mail address with the Company or RTA, can register their e-mail address for receipt of Notice of 61st AGM, Annual Report and login details for joining the 61st AGM through VC / OAVM facility including e-voting by sending a request to M/s MCS Share Transfer Agents Limited, Registrar and Share Transfer Agent through e-mail at admin@mcsharetrans.com or to the Company at akmisra@mmtclimited.com, mmtc@mmtclimited.com providing their name, folio number/DPID & Client ID, client master/ copy of consolidated account statement (in the case of demat holding), copy of share certificate - front and back (in the case of physical holdings), self-attested scanned copy of the PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar Card in support for registering e-mail address.

Any person, who acquires shares and becomes Member of the Company after the date of electronic dispatch of notice of 61st AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 20th September, 2024, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 61st AGM or sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at (www.evotingindia.com) under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager toll free no. 1800 22 55 33.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

Date-27.08.2024
 Place- New Delhi

For and on behalf of
MMTC LIMITED
 Sd/-
 (Ajay Kumar Misra)
 Company Secretary

LUMAX Lumax Auto Technologies Limited
 CIN: L31909DL1961PLC349793
 Registered Office: 2nd Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi - 110046 Tel. No.: 011-49857832
 E-Mail: shares@lumaxmail.com Website: www.lumaxworld.in/lumaxautotech

INFORMATION REGARDING 43rd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("VC/ OAVM")

This is to inform that the 43rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on **Friday, September 27, 2024 at 11:00 A.M. (IST)** through "VC/ OAVM" in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules framed thereunder read with General Circular Nos. 20/2020, 10/2022 and 09/2023 dated May 05, 2020, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively read with other Circulars, as may be applicable issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 read with other Circulars, as may be applicable issued by SEBI (collectively referred to as "SEBI Circulars") to transact the business as set out in the notice of 43rd AGM which will be sent to members through e-mail separately.

The Notice convening the 43rd AGM along with Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024 along with the login details for joining the 43rd AGM through VC/OAVM facility including e-voting will be sent only by e-mail to all those Members, whose e-mail addresses are already registered with the Company or Bigshare Services Private Limited, Registrar and Transfer Agent ("RTA") or with their respective Depository Participants ("DPs"). Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

The Notice of the 43rd AGM and the Annual Report will also be made available on Company's website (www.lumaxworld.in/lumaxautotech), Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com).

The Company is pleased to provide remote e-voting facility ("remote e-voting") prior to AGM and e-voting facility during the AGM, through NSDL to all its members to cast their votes on all resolution(s) set out in the Notice convening the 43rd AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting by members (including for those members who have not registered their email IDs) will be provided in the Notice of 43rd AGM.

Registration of E-mail addresses and updation of Bank Account details

Members who have not registered their Email IDs and/or not updated their Bank account mandate for receiving Notice of AGM and Annual Report and dividend are requested to contact their respective Depository Participants (DPs) for register your email address and bank account details as per the process advised by your DP.

Dividend

Members may further note that the Board of Directors of the Company at their Meeting held on May 27, 2024 had considered and recommended a Dividend of Rs. 5.50/- per equity share of the face value of Rs. 2/- each (@275%) for the financial year ended March 31, 2024, subject to the approval of shareholders of the Company at its ensuing AGM. The Dividend, if approved by members at the ensuing AGM, will be paid to the members holding shares on **Record date i.e., Monday, September 09, 2024**.

Tax on Dividend

The members may be aware that, in terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961 ("IT Act"), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by the Company on or after April 1, 2020 is taxable in the hands of shareholders. The Company shall therefore be liable to deduct TDS at the time of payment of Dividend. Deduction of TDS will depend upon the residential status of the shareholders and the necessary documents submitted by them and accepted by the Company in accordance with the applicable provisions of the Act. Further, the members may note that the Company has also sent an email in this regard on August 22, 2024 to all the shareholders having their email IDs registered with the Company/its RTA/Depositories, explaining the applicable conditions for deduction of TDS and for submission of the requisite documents along with the links to various forms. This communication is also available on the website of the Company at <https://www.lumaxworld.in/lumaxautotech/corporate-announcements.html>.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

For Lumax Auto Technologies Limited
 Pankaj Mahendru
 Company Secretary & Compliance Officer
 M. No.: A28161

Place: Gurugram
 Date: August 27, 2024

PSP Projects Limited
 CIN: L45201GJ2008PLC054868 Website: www.pspprojects.com
 Regd. Office: "PSP House", Opp. Celesta Courtyard, Opp. lane of Vikramnagar Colony, Iscon-Ambli Road, Ahmedabad, Gujarat - 380058
 Tel.: +91 79 26936200 / +91 79 26936300 Email: grievance@pspprojects.com

NOTICE OF THE 16th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting ("AGM") of PSP Projects Limited ("The Company"), is scheduled to be held on **Wednesday, September 18, 2024 at 11:00 a.m. IST** in compliance with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"). The Notice of the 16th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 has been sent to the members whose email addresses are registered/ updated with their Depository Participants.

The Notice and Annual Report are available on the Company's website at www.pspprojects.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has appointed NSDL as the agency to provide e-voting facility.

Information and instructions comprising manner of e-voting including e-voting during AGM and joining of AGM, has been provided in the Notice of the AGM. The manner in which persons who become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off Date (mentioned herein below) or members who have forgotten the User ID and Password, can obtain/generate the same has also been provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting period commences on Saturday, September 14, 2024 at 9:00 a.m. IST and ends on Tuesday, September 17, 2024 at 5:00 p.m. IST. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL. Once the vote(s) on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. Members attending the AGM and who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically during the AGM.

A person, whose name is recorded in the Register of Members or Register of Beneficial Owners as on the Cut-off Date, i.e. **Wednesday, September 11, 2024** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during AGM.

Manner of registering/updating e-mail addresses:

Members holding shares of the company and have not registered/updated their e-mail address with the Depository Participants are requested to register/update their e-mail addresses with their Depository Participants. Members can also register/update their e-mail addresses on RTA's website <https://nisc.kfintech.com/form15/forms.aspx?rq=0>.

In case of any queries pertaining to e-voting or technical issue, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available under the help section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre - Assistant Manager at NSDL, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 at evoting@nsdl.co.in.

Joining the AGM through VC/OAVM:

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM, through NSDL e-voting system, at www.evoting.nsdl.com. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in the notice.

By order of the Board of Directors,
 PSP Projects Limited
 Sd/-
 Kenan Patel
 Company Secretary & Compliance Officer
 Membership no.: FCS 12641

Place : Ahmedabad
 Date : August 27, 2024

DLF LIMITED
 Regd. Office: Shopping Mall, 3rd Floor, Arjun Marg, Phase-I, DLF City, Gurugram - 122 002 (Haryana)
 CIN: L70101HR1963PLC002484
 Tel.: 91-124-4334200
 Website: www.dlf.in; E-mail: investor-relations@dlf.in

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT & E-VOTING FACILITY TO THE MEMBERS

1. **Notice** is hereby given to the members of DLF Limited (the "Company") that in terms of the provisions of Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (including any statutory amendment(s), modification(s) and/ or re-enactment(s)) thereof, for the time being in force (the "Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and in compliance with General Circular No. 14/2020 dated 8 April 2020, No. 17/2020 dated 13 April 2020, No. 22/2020 dated 15 June 2020, No. 33/2020 dated 28 September 2020, No. 39/2020 dated 31 December 2020, No. 10/2021 dated 23 June 2021, No. 20/2021 dated 8 December 2021, No. 03/2022 dated 5 May 2022, No. 11/2022 dated 28 December 2022 and No. 09/2023 dated 25 September 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as "MCA") for holding general meetings/ conducting postal ballot (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations"), relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") in this regard, Secretarial Standard on General Meetings (hereinafter referred to as "SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and subject to such other laws, rules and regulations, as applicable, the Company has completed the process of dispatch of Postal Ballot Notice in electronic form on **Tuesday, 27 August 2024** to all the members whose e-mail ID is registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with the National Securities Depository Limited ("NSDL") Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (hereinafter collectively referred to as "Depositories") as of **Friday, 23 August 2024 ("Cut-off Date")**, for seeking consent of the members through Special Resolution for the proposed Special Business, by remote e-voting facility.

2. A person whose name is recorded in the Register of Members of the Company or in the list of Beneficial Owners, maintained by the Depositories as on the Cut-off Date (including those members who may not have received the Postal Ballot Notice due to non-registration of their e-mail ID with the Company or the Depositories) shall only be considered eligible to cast their vote by remote e-voting. A person who is not a member as on the Cut-off Date should treat this Notice for information purpose only.

3. In view of the MCA Circulars, the Company is sending this Notice, only in electronic form, to those members whose e-mail ID is registered with the Company/ RTA/ Depositories. Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope is not being sent to the members for this Postal Ballot. Members are requested to give their assent/ dissent only through the remote e-voting.

4. In compliance with the provisions of Section 108 and 110 of the Act and Rules made thereunder, MCA Circulars, provisions of SEBI Listing Regulations and Master Circular dated 11 July 2023 issued by SEBI which, inter-alia includes provisions for e-voting facility provided by Listed Entities and SS-2, the Company has engaged the services of NSDL for providing remote e-voting facility to the members, enabling them to cast their vote electronically and in a secure manner.

5. The remote e-voting shall commence on **Wednesday, 28 August 2024 at 9.00 A.M. (IST)** and end on **Thursday, 26 September 2024 at 5.00 P.M. (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL and no voting will be allowed thereafter. Once the vote on the Resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure/ instructions for obtaining login ID and password and casting of vote through remote e-voting facility are provided in the Postal Ballot Notice.

6. Instructions for casting of vote through remote e-voting by the members, holding equity shares either in demat mode or in physical mode are given in the Postal Ballot Notice. Members are requested to kindly refer the Postal Ballot Notice for detailed voting instructions.

7. The Company hereby requests all its members, holding equity shares in physical mode to intimate/ update their e-mail ID to Company/ RTA, either by sending a communication at the investor-relations@dlf.in or inward.ris@kfintech.com. Members holding equity shares in demat mode are requested to contact their respective Depository Participants to register/ update their e-mail ID. The detailed procedure for updating e-mail ID is mentioned in the Postal Ballot Notice.

8. In case of any queries/ grievances, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders, available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022-4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL (Mumbai Office) at evoting@nsdl.com.

9. The Postal Ballot Notice is available on the website of the Company at www.dlf.in and on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com>, being the agency providing the remote e-voting facility. The Notice is also available on the websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

10. The result of the Postal Ballot would be announced within the stipulated regulatory timelines. The result would be displayed on the Notice Board at the Registered and Corporate Office(s) of the Company. The result along with the Scrutinizers' Report would also be uploaded on the Company's website at www.dlf.in and on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com> and shall also be intimated to NSE and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively, where the equity shares of the Company are listed.

For DLF LIMITED
 Sd/-
 (R.P. Punjani)
 Company Secretary

Date: 27 August 2024
 Place: Gurugram

निफ्टी में 24808 अंक के ऊपर तेजी देखी जा सकती है

दिनांक 28.08.2024 शेयर बाजार में ट्रेडिंग के संबंध में...
दिनांक 27.08.2024 पर निफ्टी प्यूचर क्लोजिंग प्राइस @ 25017 पॉइंट पर :-
अगले कारोबार के लिए संभवित निफ्टी प्यूचर 24880 अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तर 25088 - 25108 - 25188 अंक को छू सकता है निफ्टी प्यूचर में प्रतिक्रियात्मक के लिए 24808 रुपये का महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की स्थिति...!!!
दिनांक 27.08.2024 पर बैंक निफ्टी प्यूचर क्लोजिंग प्राइस @ 51256 पॉइंट पर :-
अगले कारोबार के लिए संभवित बैंक निफ्टी प्यूचर 51088 अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तर 51303 - 51373 - 51404 अंक को छू सकता है बैंक निफ्टी प्यूचर में प्रति यात्मक के लिए 50979 रुपये का महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की स्थिति...!!!
अब नजर डालते हैं फ्यूचर्स स्टॉक सम्बंधित मूवमेंट पर...!!
रिलायंस इंडस्ट्रीज (3002) :- रिलायंस ग्रुप की इस अग्रणी कंपनी के शेयर की कीमत फिलहाल 2929 रुपये के आसपास है। 2909 रुपये के सख्त स्टॉपलॉस के साथ खरीदा जा सकने वाला यह स्टॉक 3033 से 3047 रुपये की निर्धारित लक्ष्य की संभावना है...!!! 3060 रुपये पर तेजी का रुख दिखाएगा...!!
बालकृष्ण इंडस्ट्रीज (2826) :- तकनीकी चार्ट के अनुसार 2800 रुपये के आसपास सकारात्मक ब्रेकआउट!! 2770 रुपये के सपोर्ट से खरीदा जा सकने वाला यह स्टॉक 2844 रुपये के 2860



निखिल भट्ट
रिसर्च एनालिस्ट, सेबी पंजीकृत



रुपये तक के लक्ष्य भाव की संभावना है...!!
हवेल्लस इंडिया (1894) :- कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के शेयर में 1909 रुपये से 1920 रुपये तक की शॉर्ट टर्म तेजी का रुख दिखाएगा, 1844 रुपये के अनुमानित सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!
कोटक महिन्द्रा बैंक (1806) :- प्राइवेट बैंक सेक्टर के शेयर में 1824 रुपये से 1834 रुपये तक की शॉर्ट टर्म तेजी का रुख दिखाएगा, 1773 रुपये के अनुमानित सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!
गुजरात गैस (600) :- 10 रुपये का फेसवैल्यूका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग यह स्टॉक करीब 570 स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकने वाला यह स्टॉक 570 रुपये के आसपास सकारात्मक ब्रेकआउट!! 2770 रुपये के सपोर्ट से खरीदा जा सकने वाला यह स्टॉक 2844 रुपये के 2860

होने की संभावना के साथ 2717 रुपये से 2707 रुपये के आसपास लक्ष्य भाव की संभावना है। प्रतिक्रियात्मक के लिए 2808 का स्टॉपलॉस ध्यान में रखें...!!!
इन्फोसिस लिमिटेड (1895) :- इस शेयर को 1920 / 1933 रुपये के आसपास ओवरबोटेड स्थिति दर्ज करते हुए बिकवाली की संभावना के साथ इसकी कीमत 1878 रुपये से 1864 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!! 1940 रुपये के स्तर पर एक तेजी का माहोल...!!
एचडीएफसी बैंक (1634) :- प्राइवेट बैंक सेक्टर का यह स्टॉक 1660 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1616 रुपये से 1606 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!!
जाइडस लाइफ (1110) :- फर्मास्यूटिकल सेक्टर के इस शेयर को करीब 1147 रुपये स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1097 रुपये से 1088 रुपये का टारगेट प्राइस रखने की संभावना है। ट्रेडिंग के लिए 1160 रुपये का सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!
एचडीएफसी लाइफ (737) :- इस शेयर को करीब 755 / 760 रुपये का स्टॉपलॉस साथ बेचकर की टारगेट प्राइस 725 रुपये से लेकर 717 रुपये तक रखने की संभावना है। 774 रुपये पर तेजी का रुख दिखाएगा...!!!
लेखक सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक और इन्वेस्टमेंट पोइंट के मालिक हैं।
विशेष नोट:- डिस्कल्मेर / नीति / शर्तें www.nikhilbhatt.in के अधीन...!!!
नोट: शेयरों में निवेश करने से पूर्व निवेशकों को वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए।

होने की संभावना के साथ 2717 रुपये से 2707 रुपये के आसपास लक्ष्य भाव की संभावना है। प्रतिक्रियात्मक के लिए 2808 का स्टॉपलॉस ध्यान में रखें...!!!
इन्फोसिस लिमिटेड (1895) :- इस शेयर को 1920 / 1933 रुपये के आसपास ओवरबोटेड स्थिति दर्ज करते हुए बिकवाली की संभावना के साथ इसकी कीमत 1878 रुपये से 1864 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!! 1940 रुपये के स्तर पर एक तेजी का माहोल...!!
एचडीएफसी बैंक (1634) :- प्राइवेट बैंक सेक्टर का यह स्टॉक 1660 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1616 रुपये से 1606 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!!
जाइडस लाइफ (1110) :- फर्मास्यूटिकल सेक्टर के इस शेयर को करीब 1147 रुपये स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1097 रुपये से 1088 रुपये का टारगेट प्राइस रखने की संभावना है। ट्रेडिंग के लिए 1160 रुपये का सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!
एचडीएफसी लाइफ (737) :- इस शेयर को करीब 755 / 760 रुपये का स्टॉपलॉस साथ बेचकर की टारगेट प्राइस 725 रुपये से लेकर 717 रुपये तक रखने की संभावना है। 774 रुपये पर तेजी का रुख दिखाएगा...!!!
लेखक सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक और इन्वेस्टमेंट पोइंट के मालिक हैं।
विशेष नोट:- डिस्कल्मेर / नीति / शर्तें www.nikhilbhatt.in के अधीन...!!!
नोट: शेयरों में निवेश करने से पूर्व निवेशकों को वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए।

होने की संभावना के साथ 2717 रुपये से 2707 रुपये के आसपास लक्ष्य भाव की संभावना है। प्रतिक्रियात्मक के लिए 2808 का स्टॉपलॉस ध्यान में रखें...!!!
इन्फोसिस लिमिटेड (1895) :- इस शेयर को 1920 / 1933 रुपये के आसपास ओवरबोटेड स्थिति दर्ज करते हुए बिकवाली की संभावना के साथ इसकी कीमत 1878 रुपये से 1864 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!! 1940 रुपये के स्तर पर एक तेजी का माहोल...!!
एचडीएफसी बैंक (1634) :- प्राइवेट बैंक सेक्टर का यह स्टॉक 1660 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1616 रुपये से 1606 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!!
जाइडस लाइफ (1110) :- फर्मास्यूटिकल सेक्टर के इस शेयर को करीब 1147 रुपये स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1097 रुपये से 1088 रुपये का टारगेट प्राइस रखने की संभावना है। ट्रेडिंग के लिए 1160 रुपये का सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!
एचडीएफसी लाइफ (737) :- इस शेयर को करीब 755 / 760 रुपये का स्टॉपलॉस साथ बेचकर की टारगेट प्राइस 725 रुपये से लेकर 717 रुपये तक रखने की संभावना है। 774 रुपये पर तेजी का रुख दिखाएगा...!!!
लेखक सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक और इन्वेस्टमेंट पोइंट के मालिक हैं।
विशेष नोट:- डिस्कल्मेर / नीति / शर्तें www.nikhilbhatt.in के अधीन...!!!
नोट: शेयरों में निवेश करने से पूर्व निवेशकों को वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए।

होने की संभावना के साथ 2717 रुपये से 2707 रुपये के आसपास लक्ष्य भाव की संभावना है। प्रतिक्रियात्मक के लिए 2808 का स्टॉपलॉस ध्यान में रखें...!!!
इन्फोसिस लिमिटेड (1895) :- इस शेयर को 1920 / 1933 रुपये के आसपास ओवरबोटेड स्थिति दर्ज करते हुए बिकवाली की संभावना के साथ इसकी कीमत 1878 रुपये से 1864 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!! 1940 रुपये के स्तर पर एक तेजी का माहोल...!!
एचडीएफसी बैंक (1634) :- प्राइवेट बैंक सेक्टर का यह स्टॉक 1660 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1616 रुपये से 1606 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!!
जाइडस लाइफ (1110) :- फर्मास्यूटिकल सेक्टर के इस शेयर को करीब 1147 रुपये स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1097 रुपये से 1088 रुपये का टारगेट प्राइस रखने की संभावना है। ट्रेडिंग के लिए 1160 रुपये का सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!
एचडीएफसी लाइफ (737) :- इस शेयर को करीब 755 / 760 रुपये का स्टॉपलॉस साथ बेचकर की टारगेट प्राइस 725 रुपये से लेकर 717 रुपये तक रखने की संभावना है। 774 रुपये पर तेजी का रुख दिखाएगा...!!!
लेखक सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक और इन्वेस्टमेंट पोइंट के मालिक हैं।
विशेष नोट:- डिस्कल्मेर / नीति / शर्तें www.nikhilbhatt.in के अधीन...!!!
नोट: शेयरों में निवेश करने से पूर्व निवेशकों को वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए।

होने की संभावना के साथ 2717 रुपये से 2707 रुपये के आसपास लक्ष्य भाव की संभावना है। प्रतिक्रियात्मक के लिए 2808 का स्टॉपलॉस ध्यान में रखें...!!!
इन्फोसिस लिमिटेड (1895) :- इस शेयर को 1920 / 1933 रुपये के आसपास ओवरबोटेड स्थिति दर्ज करते हुए बिकवाली की संभावना के साथ इसकी कीमत 1878 रुपये से 1864 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!! 1940 रुपये के स्तर पर एक तेजी का माहोल...!!
एचडीएफसी बैंक (1634) :- प्राइवेट बैंक सेक्टर का यह स्टॉक 1660 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1616 रुपये से 1606 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!!
जाइडस लाइफ (1110) :- फर्मास्यूटिकल सेक्टर के इस शेयर को करीब 1147 रुपये स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1097 रुपये से 1088 रुपये का टारगेट प्राइस रखने की संभावना है। ट्रेडिंग के लिए 1160 रुपये का सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!
एचडीएफसी लाइफ (737) :- इस शेयर को करीब 755 / 760 रुपये का स्टॉपलॉस साथ बेचकर की टारगेट प्राइस 725 रुपये से लेकर 717 रुपये तक रखने की संभावना है। 774 रुपये पर तेजी का रुख दिखाएगा...!!!
लेखक सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक और इन्वेस्टमेंट पोइंट के मालिक हैं।
विशेष नोट:- डिस्कल्मेर / नीति / शर्तें www.nikhilbhatt.in के अधीन...!!!
नोट: शेयरों में निवेश करने से पूर्व निवेशकों को वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए।

होने की संभावना के साथ 2717 रुपये से 2707 रुपये के आसपास लक्ष्य भाव की संभावना है। प्रतिक्रियात्मक के लिए 2808 का स्टॉपलॉस ध्यान में रखें...!!!
इन्फोसिस लिमिटेड (1895) :- इस शेयर को 1920 / 1933 रुपये के आसपास ओवरबोटेड स्थिति दर्ज करते हुए बिकवाली की संभावना के साथ इसकी कीमत 1878 रुपये से 1864 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!! 1940 रुपये के स्तर पर एक तेजी का माहोल...!!
एचडीएफसी बैंक (1634) :- प्राइवेट बैंक सेक्टर का यह स्टॉक 1660 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1616 रुपये से 1606 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!!
जाइडस लाइफ (1110) :- फर्मास्यूटिकल सेक्टर के इस शेयर को करीब 1147 रुपये स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1097 रुपये से 1088 रुपये का टारगेट प्राइस रखने की संभावना है। ट्रेडिंग के लिए 1160 रुपये का सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!
एचडीएफसी लाइफ (737) :- इस शेयर को करीब 755 / 760 रुपये का स्टॉपलॉस साथ बेचकर की टारगेट प्राइस 725 रुपये से लेकर 717 रुपये तक रखने की संभावना है। 774 रुपये पर तेजी का रुख दिखाएगा...!!!
लेखक सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक और इन्वेस्टमेंट पोइंट के मालिक हैं।
विशेष नोट:- डिस्कल्मेर / नीति / शर्तें www.nikhilbhatt.in के अधीन...!!!
नोट: शेयरों में निवेश करने से पूर्व निवेशकों को वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए।

कोल इंडिया ने चार महीनों में सरकारी खजाने में 20,072 करोड़ रुपये जमा किए

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली।

चातू वित्त वर्ष की अप्रैल-जुलाई अवधि में सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का सरकारी खजाने में योगदान 2.06 प्रतिशत बढ़कर 20,071.96 करोड़ रुपये हो गया। कोयला मंत्रालय के अस्थायी अंकड़ों के मुताबिक, घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाली कोल इंडिया लिमिटेड ने एक साल पहले की समान अवधि में सरकारी खजाने में 19,666.04 करोड़ रुपये का योगदान दिया था। जुलाई में सरकार को भुगतान की गई कुल राशि बढ़कर 4,992.48 करोड़ रुपये हो गई। एक साल



पहले की समान अवधि में यह 4,789.42 करोड़ रुपये थी। कोल इंडिया की तरफ से केंद्र और राज्य सरकारों को भुगतान की गई राशि में रॉयल्टी, जीएसटी, कोयले पर उपकर और अन्य शुल्क शामिल हैं। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को कोयला उत्पादन से पर्याप्त राजस्व मिलता है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार महीनों में कोल इंडिया ने झारखंड सरकार को सबसे अधिक 4,417.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके बाद ओडिशा सरकार को 4,319.67 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 3,950.41 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 3,526.27 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 2,086.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। कोल इंडिया ने चातू वित्त वर्ष में 83.8 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अधिक 4,417.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके बाद ओडिशा सरकार को 4,319.67 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 3,950.41 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 3,526.27 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 2,086.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। कोल इंडिया ने चातू वित्त वर्ष में 83.8 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

शानदार आर्थिक प्रगति वाले भारत में इन्फोसिस के लिए बहुत बड़ा अवसर: सीईओ पारेख

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली।

दिग्गज सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सलिल पारेख ने कहा है कि भारत में उबरने की प्रगति ने इसे बाकी दुनिया से अलग मुकाम दिया है। इन्फोसिस ने चातू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपने भारतीय कारोबार में 'मजबूत वृद्धि' दर्ज की है। पारेख ने कहा, 'भारत एक बहुत बड़ा अवसर है...



सलिल पारेख
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
इन्फोसिस

भारतीय परिवेश में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए हम जो वृद्धि देख रहे हैं, वह बहुत बड़ी है। हम यह सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कि हम निजी क्षेत्र की कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के साथ जुड़े, जहां हम सरकार के वृद्धिकोण का समर्थन कर सकते हैं। इसलिए, हम डिजिटल इंडिया के लिए कुछ आधारशिलाएं बनाने में मदद कर रहे हैं।' उन्होंने कि कंपनी सरकारी परियोजनाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा, 'आयकर प्रणाली (आयकर विभाग के लिए कर दाखिल करने वाला पोर्टल) पर हमने जो कुछ काम किया है, उसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।' इन्फोसिस का पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ सात प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,368 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 5,945 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। पारेख ने कहा कि भारत की आर्थिक सफलता शानदार है जो दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में चल रही सफलता से बहुत अलग है।

कि हम निजी क्षेत्र की कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के साथ जुड़े, जहां हम सरकार के वृद्धिकोण का समर्थन कर सकते हैं। इसलिए, हम डिजिटल इंडिया के लिए कुछ आधारशिलाएं बनाने में मदद कर रहे हैं।' उन्होंने कि कंपनी सरकारी परियोजनाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा, 'आयकर प्रणाली (आयकर विभाग के लिए कर दाखिल करने वाला पोर्टल) पर हमने जो कुछ काम किया है, उसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।' इन्फोसिस का पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ सात प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,368 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 5,945 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। पारेख ने कहा कि भारत की आर्थिक सफलता शानदार है जो दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में चल रही सफलता से बहुत अलग है।

सड़क कंपनियों की आय में अगले वित्त वर्ष पांच से सात प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद: क्रिसिल



बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। सड़क और निर्माण (ईपीसी) कंपनियों की आय वृद्धि अगले वित्त वर्ष में नरम होकर पांच से सात प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कम आवंटन से इनके ऑर्डर पर असर पड़ रहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में यह बात कही। रिपोर्ट के अनुसार, इन कंपनियों की साख स्थिर बनी रहेगी। इन कंपनियों की साख को स्थिर परिचालन लाभ और मजबूत बही-खाते का समर्थन प्राप्त है। क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक मनीष गुप्ता ने कहा कि चातू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में राजस्व वृद्धि प्रभावित होगी। जबकि पिछले पांच साल में 13 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बीच औसतन 12,500 किलोमीटर की परियोजनाएं आवंटित कीं। लेकिन पिछले वित्त वर्ष में यह घटकर 8,581 किलोमीटर और चातू वित्त वर्ष में यह 8,000 किलोमीटर रह गई। क्रिसिल के अनुसार, परियोजना आवंटन में कमी का कारण परियोजनाओं के लागत अनुमानों की मंजूरी से जुड़े प्रक्रियात्मक मुद्दे और चुनाव से पहले अदर्थ आचार-संहिता का लागू होना था। साथ ही कुछ अन्य मुद्दे भी हैं। सरकार वर्तमान में ईपीसी और हाइब्रिड पब्लिक-प्राइवेट (एचएफएम) के अलावा भविष्य की परियोजनाओं के लिए बनाओ, चलाओ और सौंप दो (बीओटी) टोल मॉडल पर गौर कर रही है। हालांकि, लागत के मोर्चे पर कंपनियों कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। प्रमुख कच्चे माल... इस्पात और तारकोल... की कीमतें वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले अपने शीर्ष स्तर से 5-17 प्रतिशत नीचे हैं। क्रिसिल ने कहा, 'चूँकि ज्यादातर परियोजनाएं निश्चित मूल्य के आधार पर दी जाती हैं, अतः परिचालन लाभ 13-14 प्रतिशत पर स्थिर रहेगा।

जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी को 200 मेगावाट की पवन-सौर मिश्रित परियोजना मिली

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने मंगलवार को कहा कि उसकी शाखा जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी को महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एमएसडीसीएल) से पवन-सौर मिश्रित बिजली परियोजना के लिए निर्णय पत्र (एलओए) मिला है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने एक बयान में कहा कि 200 मेगावाट की पवन-सौर मिश्रित बिजली परियोजना जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी को शुल्क आधारित प्रतियोगिता बोली में दी गई है। बयान में कहा गया कि इस एलओए के चलते कंपनी की कुल लॉक-इन उत्पादन क्षमता बढ़कर 17.2 गीगावाट हो गई है, जिसमें 2.9 गीगावाट की कुल लॉक-इन मिश्रित क्षमता (एफडीआई सहित) शामिल है।

INDEX	Above/Below	Conf.	Normal Target						On Trending times						
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T1	T2	T3	T4	T5	T6	
NIFTY Spot	For BUY Above	25,053	25,075	25,099	25,111	25,136	25,151	25,204	25,261						
	For SELL Below	24,982	24,961	24,942	24,925	24,899	24,884	24,832	24,774						
Bk.Nifty Spot	For BUY Above	51,379	51,431	51,478	51,525	51,592	51,632	51,771	51,923						
	For SELL Below	51,185	51,127	51,080	51,033	50,966	50,925	50,787	50,635						

इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड (आईएनए सोलर) भारत की टॉप 10 कम्पनियों में शुमार

बिजनेस रेमेडीज। क्लीन व ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में प्रतिष्ठित भारत की प्रतिष्ठित सोलर पैनेल कर्मचारियों को जाता है। एमडी विकास जैन ने बताया कि आईएनए सोलर पैनेल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों IEC, ALMM एंड BIS द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और कंपनी देश की लगभग सभी सौर परियोजनाओं जैसे की जल जीवन मिशन, कुसुम A/B/C, घरेलू रूफटॉप, बीएसएनएल इत्यादि में अपनी भागीदारी निभा कर मेक इन इंडिया मिशन को प्रमोट कर रही है। आईएनए सोलर BSE - SME बोर्ड पर सूचीबद्ध है। कंपनी की वर्तमान में 2 मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स जयपुर में स्थित है जिनकी संयुक्त उत्पादन क्षमता 950 मेगावाट है जो की आगामी वर्ष में बढ़कर सोलर पैनेल 4000 मेगावाट, सोलर सेल 1200 मेगावाट एवं एल्यूमीनियम फ्रेम 12000 मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता हो जाएगी।



मैनुफैक्चरिंग कंपनी इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड (आईएनए सोलर) को इंडस्ट्री आउटलुक द्वारा 2024 में देश के टॉप 10 सोलर पैनेल निर्माताओं में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है। आईएनए सोलर के चेयरमैन मनीष गुप्ता ने इंडस्ट्री आउटलुक का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय समस्त कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स एवं आईएनए सोलर के कर्मचारियों को जाता है। एमडी विकास जैन ने बताया कि आईएनए सोलर पैनेल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों IEC, ALMM एंड BIS द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और कंपनी देश की लगभग सभी सौर परियोजनाओं जैसे की जल जीवन मिशन, कुसुम A/B/C, घरेलू रूफटॉप, बीएसएनएल इत्यादि में अपनी भागीदारी निभा कर मेक इन इंडिया मिशन को प्रमोट कर रही है। आईएनए सोलर BSE - SME बोर्ड पर सूचीबद्ध है। कंपनी की वर्तमान में 2 मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स जयपुर में स्थित है जिनकी संयुक्त उत्पादन क्षमता 950 मेगावाट है जो की आगामी वर्ष में बढ़कर सोलर पैनेल 4000 मेगावाट, सोलर सेल 1200 मेगावाट एवं एल्यूमीनियम फ्रेम 12000 मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता हो जाएगी।

SR
SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM LIMITED
CIN: L24114RJ2005PLC021340
S.G. 2730 SUWANA, BHILWARA - 311011, RAJASTHAN, INDIA
Website: www.srdyechem.com, Email ID: info@srdyechem.com, Ph: 01482-220062

19th Annual General Meeting Notice
Notice is hereby given that 19th Annual General Meeting of the members of Shankar Lal Rampal Dye-Chem Limited will be held on Saturday, 21st September, 2024 at 02:00 pm through VC/OAVM.
The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, December 20, 2022, 09/2023 dated 25th September, 2023 and SEBI vide its Circular dated 7th October 2023, and other circulars issued in relation to "Relaxation from Compliance with certain provisions of SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") permitted holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. The Annual Report of the Company for FY 2023-24 along with Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Company at www.srdyechem.com. In accordance MCA and SEBI Circular; owing to the difficulties involved in dispatching of physical copies of the financial statements (including Report of Board of Directors, Auditor's report or other documents required to be attached therewith), such statements including the Notice of AGM are being sent in electronic mode to Members whose e-mail address is registered with the Company or the Depository Participant(s) based on Cut Off date Friday, August 09, 2024. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the AGM Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.
The Members can participate in the AGM through VC/OAVM only, cast their vote via E-voting (during E-Voting period or at the AGM) and instructions for the same are duly provided in the AGM Notice itself. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
The Company has fixed 30th August, 2024 as the 'Record Date' for determining entitlement of members to final dividend for the financial year ended March 31, 2024, if approved at the AGM.
The Board has recommended Final Dividend of Rs. 0.05(0.50% of Paid Up Value) which will be subject to approval by shareholder in their AGM. Further in order to receive dividend in a timely manner, Members who have not updated their mandate for receiving dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means can register their Electronic Bank Mandate at least 5 days before Record date. Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable at the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to members at prescribed rates. For the prescribed rates for various categories the members are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. The members are requested to update their PAN with Registrar and Transfer Agents (in case of shares held in physical mode) and depository participants (in case shares held in demat mode).
The Company is pleased to provide e-voting facility to all its shareholders to cast their votes electronically on all the resolutions mentioned in the notice of 19th Annual General Meeting of the Company dated 23rd August, 2024 (the AGM Notice). The e-voting rights of the shareholders/beneficial owners shall be reckoned proportionate to the equity shares held by them at the end of business hours on 15th September, 2024. The E-Voting shall start on Wednesday, 18th September, 2024(09:00 AM onwards) to Friday, 20th September, 2024(Till 05:00 PM); NSDL will block E-Voting after that. The members who have not updated their correct e-mail ID with its Depository Participant(DP) or Company's RTA-Cameo Corporate Service Limited, or the member who acquired shareholding after cut-off date of sending Notice but before Cut-off Date of voting; it may update the correct Email ID with RTA of the Company by sending proper request letter and can send the request to company's designated email id-cs@srdyechem.com.
The detailed Instructions E-Voting, attending meeting via VC/OAVM, Speaker Registration, etc. are available in the AGM Notice emailed to members and uploaded on Investor Relation Tab of company's website-www.srdyechem.com. Members are requested to go through the same. The assistance can be seek from E-Voting Service Provider NSDL at evoting@nsdl.co.in

For and on behalf of
SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM LIMITED
Sd/-
Aditi Babel
Company Secretary & Compliance Officer
M.No.-A55675

Date: 23/08/2024
Place: Bhilwara

हाईस्ट्रीट फिलाटेक्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: बी-17, द्वितीय तल, 22 गीदा मंडल इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302006 (राज.)
दूरभाष: 0141-4025431 सी आई एन: L18101RJ1994PLC008386
वेबसाइट: www.highstreetfilatex.in ई-मेल: highstreet.filatex@gmail.com

हाईस्ट्रीट फिलाटेक्स लिमिटेड की 30वीं एनुअल जर्नल मीटिंग की सूचना, जो की वीडियो कांफ्रेंसिंग ("ओएवीएम") और अन्य ऑडियो विजुअल मीडिया ("ओएवीएम") और रिमोट ई-वोटिंग और बुक बलोजर जानकारी की सूचना देने के लिए है।
सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, के सर्वूलर (एससीएस सर्वूलर) न. 09 / 2023 दिनांक सितम्बर 25, 2023 और इस संबंध में अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पढ़ें तथा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मास्टर सर्वूलर न. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 दिनांक जुलाई 11, 2023 और सेबी सर्वूलर न. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 दिनांक अक्टूबर 07, 2023 और इस संबंध में अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पढ़ें के अनुसार परमिट्टेड हाईस्ट्रीट फिलाटेक्स लिमिटेड की 30 वीं एनुअल जर्नल मीटिंग शुरूवार, 20 सितम्बर, 2024 को दोपहर 02:00 बजे, वीडियो कांफ्र